

उत्तर प्रदेश में बृहद् ऋण मेले का शुभारंभ

चर्चा में क्यों?

30 जून, 2022 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन में आयोजित समारोह में बृहद् ऋण मेले का शुभारंभ किया।

प्रमुख बंदि

- इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 9 हस्तशिल्पियों, कारीगरों एवं उद्यमियों को दयि गए ऋण का प्रतीकात्मक चेक सौंपा।
- सभी 75 जनपदों में आयोजित बृहद् ऋण मेले के इस कार्यक्रम के अंतर्गत 'प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम', 'प्रधानमंत्री मुद्रा योजना', 'मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना', 'एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण योजना' आदि के 1 लाख 90 हजार लाभार्थी हस्तशिल्पियों, कारीगरों एवं उद्यमियों को 16 हजार करोड़ रुपए के ऋण का वितरण किया गया।
- मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर वर्ष 2022-23 की 2.95 लाख करोड़ रुपए की वार्षिक ऋण योजना का वमिचन किया साथ ही कार्यक्रम के दौरान 'एक जनपद एक उत्पाद योजना' के अंतर्गत 5 जनपदों-आगरा, अंबेडकरनगर, सीतापुर, आजमगढ़, सदिधार्थ नगर में स्थापित कॉमन फैसलिटी सेंटर का उदघाटन किया।
- कॉमन फैसलिटी सेंटर की स्थापना से 'एक जनपद एक उत्पाद योजना' के हस्तशिल्पियों, कारीगरों, उद्यमियों को आधुनिक तकनीकी से जुड़ने का अवसर मल्लिगा। इससे उत्पादों की गुणवत्ता बेहतर होगी और आय में वृद्धि होगी।
- मुख्यमंत्री के समक्ष कार्यक्रम के दौरान अपर मुख्य सचवि एमएसएमई नवनीत सहगल एवं अमेजॉन के वीपी पॉलिसी चेतन कृष्ण स्वामी के मध्य एक एमओयू का आदान-प्रदान किया गया। इसके तहत अमेजॉन छोटी इकाइयों को अपने उत्पादों के नरियात में सहायता करेगा। अमेजॉन छोटी इकाइयों को डजिटिइज करने का कार्य किया जा रहा है। इसके लयि अमेजॉन द्वारा कानपुर में एक डजिटिल केंद्र स्थापति किया जा रहा है। यह गुजरात राज्य के सूरत के बाद अमेजॉन द्वारा देश में स्थापति दूसरा केंद्र होगा।
- ज्ञातव्य है किकानपुर में अमेजॉन के डजिटिल केंद्र का शुभारंभ किया गया है। इस केंद्र के माध्यम से एमएसएमई हस्तशिल्पियों, कारीगरों, उद्यमियों को देश-वदिश में अपने उत्पादों की मार्केटगि में सहूलयित होगी।
- इसके अतरिकित प्रदेश के 35 जनपदों में सडिबी के सहयोग से स्वावलंबन केंद्रों का शुभारंभ किया गया है। यह केंद्र नये उद्यमियों की हैड होल्डगि का कार्य करेंगे। भवषिय में प्रदेश के सभी जनपदों में यह केंद्र स्थापति कयि जाएंगे।
- मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधति करते हुए कहा कबृहद् ऋण मेले का कार्यक्रम एमएसएमई वभिग की 100 दनि की कार्ययोजना का हसिसा है। एमएसएमई उद्यमियों को ऋण की उपलब्धता से आर्थिक गतविधियाँ तेजी से आगे बढेंगी। इससे युवाओं को रोजगार मल्लिगा। साथ ही, बैंकों का सी.डी. रेशयि भी बढेगा।
- उल्लेखनीय है ककि 24 जनवरी, 2018 को 'एक जनपद एक उत्पाद योजना' लागू की गई। वर्तमान में यह योजना उत्तर प्रदेश को एक्सपोर्ट का हब बनाकर नई पहचान दलिा रही है। वर्ष 2016 में प्रदेश से लगभग 80 हजार करोड़ रुपए का नरियात होता था, जो अब बढकर 1.56 लाख करोड़ रुपए का हो गया है। इससे वर्तमान में प्रदेश की बेरोजगारी दर 3 प्रतशित से कम है।
- एमएसएमई मंत्री ने कहा ककि प्रदेश सरकार द्वारा वार्षिक ऋण योजना 2020-21 के तहत 2 लाख 12 हजार 934 करोड़ रुपए का ऋण वितरति किया गया। एमएसएमई कषेत्र में 83,061 करोड़ रुपए का ऋण वितरति किया गया है, जो वार्षिक लक्ष्य के सापेक्ष 115 प्रतशित है। वार्षिक ऋण योजना 2022-23 के अंतर्गत 2.95 लाख करोड़ रुपए के ऋण वितरण का लक्ष्य रखा है।